

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 519] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 4, 1979/अग्रहायण 13, 1901
No. 519] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 4, 1979/AGRAHAYANA 13, 1901

इस भाग में चिह्नपृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग
संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वाणिज्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1979

आयात व्यापार नियंत्रण

का० आ० 785 (अ).—सं० ई (सी) आ०, 1977/ए एम (139):—आयात तथा
निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में और आगे संशोधन
करते हुए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात्:—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 51वां संशोधन आदेश कहा जाए।

2 नियति (नियंत्रण) आदेश, 1977 म.—

- (1) अनुसूची 1 के भाग "ख" में क्रम सं० 41(ii) के सामने दर्शाई गई वर्तमान प्रविष्टि को हटाया जाएगा।
- (2) अनुसूची 1 के भाग "क" में क्रम सं० 21(i) के सामने दर्शाई गई वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—
"सभी प्रकार की एक्सपेलर ककी"।

[क्रा० सं० 38 (18)/79—ई II]

सी० वेंकटरमन, मुख्य नियंत्रक, आयात-नियति

MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 4th December, 1979

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 785(E).—No. E(C)O. 1977/AM(139).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Fifty-first Amendment Order, 1979.
2. In the Exports (Control) Order, 1977—
 - (i) In Part 'B' Schedule I, the existing entry appearing against S. No. 41(ii) shall be deleted.
 - (ii) In Part 'A' Schedule I, the existing entry appearing against S. No. 21(i) shall be substituted by the following :—
"Expeller cakes, all varieties".

[F. No. 38(18)/79-EII]

C. VENKATARAMAN, Chief Controller, Import & Exports